

Tokyo Olympic 2020

जापान की राजधानी Tokyo में खेलों के महाकुभ ओलंपिक का बिगुल बज चुका है। Tokyo में 127 इंडियन ऐथलीट मेडल पर दांव लगाएंगे।(67 Indian Athletes are male and 52 participants are females.) . Total 228 (127 Athletes & Other (Staff, Coacher, etc)

2016 रियो ओलंपिक में 117 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया था। भारत इस साल अपनी ओलंपिक भागीदारी के 100वें साल का जश्न मना रहा है।

भारतीय खिलाड़ी 18 खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहे हैं।

ओलंपिक के इतिहास में भारत ने अब तक कुल 28 मेडल जीते हैं, जिसमें 9 गोल्ड, 7 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल हैं. भारत की ओर से सबसे पहला मेडल जीतने वाले खिलाड़ी नॉर्मन प्रिचर्ड थे, जिन्होंने 1900 पेरिस गेम्स में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था.

Now check the full list of Indian Athletes for Tokyo Games Olympics 2021 as per their sports and category wise below.



Archery

- Tarundeep Rai, Men's Recurve
- Atanu Das, Men's Recurve
- Pravin Jadhav, Men's Recurve
- Deepika Kumari, Women's Recurve

Athletics

- KT Irfan, Men's 20km race walking
- Sandeep Kumar, Men's 20km race walking
- Rahul Rohilla, Men's 20km race walking
- Bhawna Jat, Women's 20km race walking
- Priyanka Goswami, Women's 20km race walking
- Avinash Sable, Men's 3000m steeplechase
- Murali Sreeshankar, Men's long jump
- MP Jabir, Men's 400m hurdles
- Neeraj Chopra, Men's javelin throw
- Shivpal Singh, Men's javelin throw
- Annu Rani, Women's javelin throw
- Tajinderpal Singh Toor, Men's shot put
- Dutee Chand, Women's 100m and 200m
- Kamalpreet Kaur, Women's discus throw
- Seema Punia, Women's discus throw
- 4x400 Mixed Relay
- Men's 4x400m Relay

Badminton

- PV Sindhu, Women's singles
- B Sai Praneeth, Men's singles
- Satwiksairaj Rankireddy and Chirag Shetty, Men's doubles



Boxing

- Vikas Krishan (Men's, 69kg)
- Lovlina Borgohain (Women's, 69kg)
- Ashish Kumar (Men's, 75kg)
- Pooja Rani (Women's, 75kg)
- Satish Kumar (Men's, 91kg)
- Mary Kom (Women's, 51kg)
- Amit Panghal (Men's, 52kg)
- Manish Kaushik (Men's, 63kg)
- Simranjit Kaur (Women's, 60kg)

Equestrian

- Fouaad Mirza

Golf

- Anirban Lahiri
- Udayan Mane
- Aditi Ashok

Gymnastics

- Pranati Nayak

Judo



- Sushila Devi Likmabam

Rowing

- Arjun Jat
- Arvind Singh



Sailing

- Nethra Kumanan, Laser Radial
- Vishnu Saravanan, Laser Standard
- KC Ganapathy and Varun Thakkar, 49er

Shooting

- Anjum Moudgil- 10m Women's Air Rifle
- Apurvi Chandela- 10m Women's Air Rifle
- Divyansh Singh Panwar- 10m Men's Air Rifle
- Deepak Kumar- 10m Men's Air Rifle
- Tejaswini Sawant- 50m Women's Rifle 3 Position
- Sanjeev Rajput- 50m Men's Rifle 3 Position
- Aishwarya Pratap Singh Tomar- 50m Men's Rifle 3 Position
- Manu Bhaker- 10m Women's Air Pistol
- Yashaswini Singh Deswal- 10m Women's Air Pistol
- Saurabh Chaudhary- 10m Men's Air Pistol
- Abhishek Verma- 10m Men's Air Pistol
- Rahi Sarnobat- 25m Women's Pistol
- Chinki Yadav- 25m Women's Pistol
- Angad Veer Singh Bajwa- Men's Skeet
- Mairaj Ahmad Khan- Men's Skeet

Swimming

- Sajan Prakash
- Srihari Nataraj
- Maana Patel



Table Tennis

- Sharath Kamal
- Sathiyam Gnanasekaran
- Sutirtha Mukherjee
- Manika Batra

Tennis

- Sania Mirza and Ankita Raina, Women's Doubles
- Sumit Nagal, Men's singles

Weightlifting

Mirabai Chanu – Women’s 49kg

Wrestling

- Seema Bisla- Women’s Freestyle, 50kg
- Vinesh Phogat- Women’s Freestyle 53kg
- Anshu Malik- Women’s Freestyle 57kg
- Sonam Malik- Women’s Freestyle 62kg
- Ravi Kumar Dahiya- Men’s Freestyle 57kg
- Bajrang Punia- Men’s Freestyle 65kg
- Deepak Punia- Men’s Freestyle 86 kg



भारतीय समयानुसार हैं खेलों का शेड्यूल...

तीरंदाजी

- 23 जुलाई 5:30 AM: महिला व्यक्तिगत योग्यता राउंड (दीपिका कुमारी)
- 9:30 AM: पुरुषों की व्यक्तिगत योग्यता राउंड (अतनु दास, प्रवीण जाधव, तरुणदीप राय)
- 24 जुलाई 6:00 AM: मिक्स्ड टीम एलिमिनेशन (अतनु दास, दीपिका कुमारी)
- 26 जुलाई 6:00 AM: मेन्स टीम एलिमिनेशन (अतनु दास, प्रवीण जाधव, तरुणदीप राय)
- 27 जुलाई से 31 जुलाई 6:00 AM: पुरुष और महिला व्यक्तिगत एलिमिनेशन 1:00 PM: मेडल मैच

ऐथलेटिक्स

- 30 जुलाई- 5:30 AM: पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपलचेज हीट (अविनाश सेबल)
- 7:25 AM: पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ राउंड 1 हीट (एमपी जाबिर)
- 8:10 AM: महिला 100 मीटर राउंड 1 हीट (दुती चंद)
- 4:30 PM: मिश्रित 4 गुणा 400 मीटर रिले राउंड 1 हीट (एलेक्स एंटनी, सार्थक भांबरी, रेवती वीरमणि, सुभा वेंकटेशन)
- 31 जुलाई- 6:00 AM: महिला डिस्कस थ्रो -योग्यता (सीमा पुनिया, कमलप्रीत कौर)
- 3:40 PM: पुरुषों की लंबी कूद- योग्यता (एम श्रीशंकर)
- 3:45 PM: महिलाओं की 100 मीटर सेमीफाइनल (दुती चंद - अगर क्वालिफाई करती हैं)
- 6:05 PM: मिश्रित 4 गुणा 400 मीटर रिले फाइनल (एलेक्स एंटनी, सार्थक भांबरी, रेवती वीरमणि, सुभा वेंकटेशन - यदि योग्य हो)

- 1 अगस्त- 5:35 PM: पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ सेमीफाइनल (एमपी जाबिर - अगर क्वालिफाई करते हैं)
- 2 अगस्त- 6:50 AM: पुरुषों की लॉन्ग जंप फाइनल (एम श्रीशंकर - अगर क्वालिफाई करते हैं)
- 7:00 AM: महिला 200 मीटर राउंड 1 हीट (दुती चंद)
- 3:55 PM: महिलाओं की 200 मीटर सेमीफाइनल (दुती चंद - अगर क्वालिफाई करती हैं)
- 4:30 PM: महिला डिस्कस थ्रो फाइनल (सीमा पुनिया, कमलप्रीत कौर - अगर क्वालिफाई करती हैं)
- 5:45 PM: पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपलचेज फाइनल (अविनाश सेबल - अगर क्वालिफाई करते हैं)
- 3 अगस्त- 5:50 AM: महिला भाला फेंक योग्यता (अन्नू रानी)
- 8:50 AM: पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ का फाइनल (एमपी जाबिर - अगर क्वालिफाई करते हैं)
- 3:45 PM: पुरुषों की शॉट पुट-योग्यता (तजिंदर सिंह तूर)
- 6:20 PM: महिलाओं की 200 मीटर फाइनल (दुती चंद - अगर क्वालिफाई करती हैं)
- 4 अगस्त- 5:35 AM: पुरुषों की भाला फेंक- योग्यता (नीरज चोपड़ा, शिवपाल सिंह)
- 5 अगस्त- 7:35 AM: मेन्स शॉट पुट फाइनल (तजिंदर सिंह तूर - अगर क्वालिफाई करते हैं)
- 1:00 PM: पुरुषों की 20 किमी रेस वॉक फाइनल (केटी इरफान, संदीप कुमार, राहुल रोहिला)
- 6 अगस्त- 2:00 AM: पुरुषों की 50 किमी रेस वॉक फाइनल (गुरप्रीत सिंह)
- 1:00 PM: महिलाओं की 20 किमी रेस वॉक फाइनल (भावना जाट, प्रियंका गोस्वामी)
- 4:55 PM: पुरुषों की 4 गुणा 400 मीटर रिले राउंड 1-हीट (अमोज जैकब, अरोकिया राजीव, नूह निर्मल टॉम, मोहम्मद अनस याहिया)

- 5:20 AM: महिला भाला फेंक फाइनल (अन्नू रानी - अगर क्वालिफाई करती हैं)
- 7 अगस्त- 4:30 PM: पुरुषों की भाला फेंक फाइनल (नीरज चोपड़ा, शिवपाल सिंह - अगर क्वालिफाई करते हैं)
- 6:20 PM: पुरुषों की 4 गुणा 400 मीटर रिले फाइनल (अमोज जैकब, अरोकिया राजीव, नूह निर्मल टॉम, मुहम्मद अनस याहिया - यदि योग्य हो)

बैडमिंटन

- 24 जुलाई- 8:50 AM: मेन्स डबल्स ग्रुप स्टेज - ग्रुप ए (सात्विकसाईराज रेंकीरेड्डी/चिराग शेटी) बनाम ली यांग/वांग ची-लिन)
- 9:30 AM: पुरुष एकल ग्रुप स्टेज - ग्रुप डी (साई प्रणीत बनाम जिल्बरमैन मिशा)
- 25 जुलाई- 7:10 AM: महिला एकल ग्रुप स्टेज - ग्रुप जे (पीवी सिंधु बनाम पोलिकारपोवा केन्सिया)
- 26 जुलाई से 29 जुलाई 5:30 AM: सभी कार्यक्रम - ग्रुप स्टेज मैच (पीवी सिंधु, साई प्रणीत, सात्विकसाईराज रेंकीरेड्डी/चिराग शेटी)
- 29 जुलाई 5,30 AM: पुरुष युगल क्वार्टर-फाइनल (सात्विकसाईराज रेंकीरेड्डी/चिराग शेटी - अगर योग्य हों)
- 30 जुलाई- 5:30 AM: महिला एकल क्वार्टर-फाइनल (पीवी सिंधु - यदि क्वालिफाई करती हैं)
- 12:00 PM: पुरुष युगल सेमीफाइनल (सात्विकसाईराज रेंकीरेड्डी / चिराग शेटी - अगर क्वालिफाई करते हैं)
- 31 जुलाई 5:30 AM: पुरुष एकल क्वार्टर-फाइनल (साई प्रणीत - यदि क्वालिफाई करते हैं)
- 2:30 PM: महिला एकल सेमीफाइनल (पीवी सिंधु - यदि क्वालिफाई करती हैं)
- 2:30 PM: मेन्स डबल्स फाइनल (सात्विकसाईराज रेंकीरेड्डी/चिराग शेटी - अगर क्वालिफाई करते हैं)
- 1 अगस्त- 9:30 AM: पुरुष एकल सेमीफाइनल - (साई प्रणीत - यदि क्वालिफाई करते हैं)
- 5:00 PM: महिला एकल फाइनल (पीवी सिंधु - अगर क्वालिफाई करती हैं)

- 2 अगस्त- 4:30 PM: पुरुष एकल फाइनल (साई प्रणीत - यदि क्वालिफाई करते हैं)

बॉक्सिंग

- 24 जुलाई- 8:00 AM: विमेंस वेल्टरवेट राउंड ऑफ 32 (लवलीना बोगोर्हेन)
- 9:54 AM: मेन्स वेल्टरवेट राउंड ऑफ 32 (विकास कृष्ण)
- 25 जुलाई-7:30 AM: महिला फ्लाइवेट राउंड ऑफ 32 (मेरी कॉम)
- 8:48 AM: पुरुषों का लाइटवेट राउंड ऑफ 32 (मनीष कौशिक)
- 26 जुलाई- 7:30 AM: पुरुषों का फ्लाइवेट राउंड ऑफ 32 (अमित पंधाल)
- 9:06 AM: मेन्स मिडिलवेट राउंड ऑफ 32 (आशीष कुमार)
- 27 जुलाई- 7:30 AM: मेन्स वेल्टरवेट राउंड ऑफ 16 (विकास कृष्ण - अगर क्वालिफाई करता है)
- 9:36 AM: विमेंस लाइटवेट राउंड ऑफ 32 (सिमरनजीत कौर)
- 10:09 AM: 32 का महिलाओं का वेल्टरवेट राउंड (लवलीना बोरगोहेन - अगर क्वालिफाई करते हैं)
- 28 जुलाई- 8:00 AM: विमेंस मिडिलवेट राउंड ऑफ 16 (पूजा रानी)
- 29 जुलाई- 7:30 AM: मेन्स मिडिलवेट राउंड ऑफ 16 (आशीष कुमार - अगर क्वालिफाई करते हैं)
- 8:33 AM: मेन्स सुपर हैवीवेट राउंड ऑफ 16 (सतीश कुमार)
- 9:36 AM: महिला फ्लाइवेट राउंड ऑफ 16 (मेरी कॉम - अगर क्वालिफाई करती हैं)
- 30 जुलाई- 7:30 AM: महिला लाइटवेट राउंड ऑफ 16 (सिमरनजीत कौर - यदि क्वालिफाई करती हैं)
- 31 जुलाई से 8 अगस्त: सभी श्रेणियां (फाइनल राउंड और मेडल मैच - यदि मुक्केबाज क्वालिफाई करते हैं)



घुड़सवारी

- 30 जुलाई- 5 AM: इवेंटिंग इंडिविजुअल क्वालिफायर (फवाद मिर्जा)

तलवारबाजी

- 26 जुलाई- 5:30 AM: महिला साब्रे व्यक्तिगत तालिका 64 (भवानी देवी)
- 4:20 PM: महिला साब्रे व्यक्तिगत पदक मैच (भवानी देवी - यदि क्वालिफाई करती हैं)

गोल्फ

- 29 जुलाई-अगस्त 1- 4:00 AM: मेन्स इंडिविजुअल स्ट्रोकप्ले (अनिर्बान लाहिड़ी, उदयन माने)
अगस्त 4-7- 4:00 AM: महिला व्यक्तिगत स्ट्रोकप्ले (अदिति अशोक)

जिम्नैस्ट

- जुलाई 25- 6:30 AM: महिला कलात्मक जिमनास्टिक योग्यता (प्रणति नायक)
- 29 जुलाई से 3 अगस्त- 2:00 PM: महिला कलात्मक जिमनास्टिक ऑल-राउंड और इवेंट्स फाइनल (प्रणति नायक - यदि योग्य हुई तो)

हॉकी

- 24 जुलाई- 6:30 AM: पुरुष पूल ए - भारत बनाम न्यूजीलैंड
- 5:15 PM: महिला पूल ए - भारत बनाम नीदरलैंड्स
- 25 जुलाई- 3:00 PM: पुरुष पूल ए - भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया
- 26 जुलाई- 5:45 PM: महिला पूल ए - भारत बनाम जर्मनी
- 27 जुलाई- 6:30 AM: पुरुष पूल ए - भारत बनाम स्पेन
- 28 जुलाई- 6:30 AM: महिला पूल ए - भारत बनाम ग्रेट ब्रिटेन
- 29 जुलाई- 6:00 AM: पुरुष पूल ए - भारत बनाम अर्जेंटीना
- 30 जुलाई- 8:15 AM: महिला पूल ए - भारत बनाम आयरलैंड
- 3:00 PM: पुरुष पूल ए - भारत बनाम जापान
- 31 जुलाई- 8:45 AM: महिला पूल ए - भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका
- 1 अगस्त- 6:00 AM: पुरुषों के क्वार्टर-फाइनल - यदि क्वालिफाई करते हैं
- 2 अगस्त- 6:00 AM: महिला क्वार्टर-फाइनल - यदि योग्य हो तो

- 3 अगस्त- 7:00 AM: पुरुषों के सेमी-फाइनल - यदि क्वालिफाई करते हैं
- 4 अगस्त- 7:00 AM: महिला सेमी-फाइनल - यदि क्वालिफाई किया जाता है
- 5 अगस्त- 7:00 AM: पुरुषों का कांस्य पदक मैच
- 3:30 PM: पुरुषों का स्वर्ण पदक मैच
- 6 अगस्त- सुबह 7:00 बजे: महिला कांस्य पदक मैच
- 3:30 PM: महिला स्वर्ण पदक मैच

जूडो

- 24 जुलाई- 7:30 AM: महिला -48 किग्रा एलिमिनेशन राउंड ऑफ 32 (सुशीला देवी)

रोइंग

- 24 जुलाई- 7:50 AM: मेन्स लाइटवेट डबल स्कल्स हीट (अर्जुन लाल, अरविंद सिंह)

नौकायन

- 25 जुलाई- 8:35 AM: महिला लेजर रीडायल - रेस 1 (नेत्रा कुमानन)
- 11:05 AM: मेन्स लेजर - रेस 1 (विष्णु सरवनन)
- 27 जुलाई- 11:20 AM: पुरुषों की 49इअर - रेस 1 (केसी गणपति, वरुण ठक्कर)



निशानेबाजी

- 27 जुलाई- 5:30 AM: 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम योग्यता (सौरभ चौधरी / मनु भाकर और और अभिषेक वर्मा/यशस्विनी सिंह देसवाल - यदि योग्य हो)
- 9:45 AM: 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम योग्यता (दिव्यांश सिंह पंवार / इलावेनिल) वालारिवन और दीपक कुमार/अंजुम मोद्गिल)
- 11:45 AM: 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम ब्रॉन्ज मेडल मैच (दिव्यांश सिंह पंवार/एलावेनिल) वालारिवन और दीपक कुमार / अंजुम मोद्गिल - यदि योग्य हो)



- 12:20 PM: 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम गोल्ड मेडल मैच (दिव्यांश सिंह पंवार/एलावेनिल) वालारिवन और दीपक कुमार / अंजुम मोद्गिल - यदि योग्य हो)
- 29 जुलाई- 5:30 AM: महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल क्वालिफिकेशन प्रेसिजन (मनु भाकर, राही सरनोबत)
- 30 जुलाई- 5:30 AM: महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल क्वालिफिकेशन रैपिड (मनु भाकर, राही सरनोबत)
- 11:20 AM: महिला 25 मीटर पिस्टल फाइनल (मनु भाकर, राही सरनोबत - यदि क्वालिफाई किया जाता है)
- 31 जुलाई- 8:30 AM: महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन योग्यता (अंजुम मोद्गिल, तेजस्विनी सावंत)
- 12:30 PM: महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन फाइनल (अंजुम मोद्गिल, तेजस्विनी सावंत - अगर योग्य हुए तो)
- 2 अगस्त- 8:00 AM: पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन योग्यता (संजीव राजपूत, ऐश्वर्या प्रताप) सिंह)
- 1:20 PM: पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन फाइनल (संजीव राजपूत, ऐश्वर्या प्रताप सिंह - अगर योग्य हुए तो)

Tokyo Olympics – India at Tokyo Olympics: India to throw challenge in 18 Sports at Olympics

Archery

- Athletics
- Badminton
- Boxing
- Equestrian
- Fencing
- Hockey
- Golf
- Gymnastics
- Judo
- Rowing
- Sailing



Vyapam Manthan is an online exam preparation App which help you to analyse yourself and your skills for exam. As far as possible care has been taken in compiling, But in case of any contradiction, consider the original source as authentic. Update Every Week. Checkout on Regular basis



[Current Affairs](#) | [Previous Exam Papers](#) | [Mock Test](#) | [Exam Notification](#) | [Notes](#) | [Syllabus](#) | [Result](#)
[Download Current Affairs pdfs](#)

- Shooting
- Swimming
- Table tennis
- Tennis
- Weightlifting
- Wrestling

